

प्रेषक,
सी0एस0 नपलच्याल,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
सचिव,
विधान सभा,
उत्तराखण्ड।

राज्य सम्पत्ति अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक 16 मई, 2016

विषय : वित्तीय वर्ष 2014-15 में जनपद चमोली के भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय के निर्माण हेतु (P.L.A.) में जमा धनराशि की अवधि विस्तारित किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

जनपद चमोली के भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय निर्माण हेतु जिलाधिकारी देहरादून के (P.L.A.) में स्थान्तरित धनराशि के व्यय के संबंध में जिलाधिकारी देहरादून के पत्र दिनांक 02 मार्च, 2016 के क्रम में प्राप्त आपके पत्र संख्या-215/वि0स0/92/व्यव0/2014-15, दिनांक 05 मार्च, 2016 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा शासनादेश संख्या-263/वि0स0/92/व्यव0/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 के क्रम में जिलाधिकारी देहरादून के (P.L.A.) खाते में रखी धनराशि ₹ 13,00,00,000 (₹ तेरह करोड़ मात्र) के आहरण कर अपेक्षा की गयी है।


2- उक्त संदर्भ में भराड़ीसैण (गैरसैण) में मिनी सचिवालय के निर्माण कार्य की कार्यवाही गतिमान होने के दृष्टिगत वित्त विभाग की सहमति के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासनादेश संख्या-263/वि0स0/92/व्यव0/2014-15 दिनांक 30 मार्च, 2015 द्वारा जिलाधिकारी देहरादून के (P.L.A.) खाते में रखी हुई धनराशि ₹ 13,00,00,000 (₹ तेरह करोड़ मात्र) को विस्तारित किये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,
(सी0एस0 नपलच्याल)
सचिव।

(2)

पृ० संख्या- ८५४ (1)/xxxii(1)-2016/01(एक)-21/2014, तद्दिनांक।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा सहारनपुर रोड, देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, केन्द्रीयकृत भुगतान एवं लेखा कार्यालय, 23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला।
- 3- आयुक्त, गढवाल मण्डल पौड़ी।
- 4- जिलाधिकारी देहरादून।
- 5- मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 6- वित्त अधिकारी, उत्तराखण्ड शासन।
- 7- निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएँ, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 8- वित्त अनुभाग-5/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 9- बजट राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय।
- ✓ 10- निदेशक एन.आई.सी. सचिवालय परिसर।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एम०एम० सेमवाल)
संयुक्त सचिव।